



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 588]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 23, 2018/भाद्र 1, 1940

No. 588]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 23, 2018/BHADRA 1, 1940

कॉरपोरेट मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 796(अ).—केंद्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 29क की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट (परिषद का निर्वाचन) नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट (परिषद का निर्वाचन) संशोधन नियम, 2018 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- चार्टर्ड अकाउंटेंट (परिषद का निर्वाचन) नियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 16 में, उपनियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(5) परिषद, निर्वाचन आचार संहिता के प्रवर्तन के लिए रिटर्निंग आफिसर और या तो कारपोरेट कार्य मंत्रालय या भारत निर्वाचन आयोग अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग के दो अधिकारियों से मिलकर बनने वाला पैनल नियुक्त करेगी।

(6) निर्वाचन आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली कोई शिकायत डाक या ई-मेल से प्राप्त होने पर रिटर्निंग अधिकारी शिकायत की प्रति तुरंत उस सदस्य को जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, उसके द्वारा उक्त शिकायत की प्राप्ति से सात दिवस के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करने की मांग करते हुए अग्रेषित करेगा।

(7) लिखित कथन प्राप्त होने पर रिटर्निंग अधिकारी पैनल के समक्ष उस पर विचार करने के लिए शिकायत और लिखित कथन के साथ अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हो, प्रस्तुत करेगा।

परंतु ऐसे सदस्य जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, द्वारा सात दिवसों के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी यह उपधारणा करेगा कि सदस्य को कुछ नहीं कहना है और नियमानुसार आगे कार्रवाई करेगा।

(8) सदस्य की शिकायत और लिखित कथन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् यदि पैनल का यह विचार है कि सदस्य ने निर्वाचन आचार संहिता या नियम 42 के एक या अधिक उपबंधों का उल्लंघन किया है तो वह अपनी राय के साथ शिकायत को आगे अनुसंधान हेतु निदेशक (अनुशासन) को निर्दिष्ट करेगा।

(9) पैनल को उसकी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।”

परंतु उपरोक्त निर्दिष्ट शिकायत पैनल द्वारा उसके प्राप्त होने की तारीख से 15 दिवस के भीतर पैनल द्वारा निपटाई जाएगी।

3. उक्त नियमों के नियम 20 के खंड (क) में शब्दों “रोमन या” और “या शब्दों में ” तथा खंड (ख) में “ या रोमन” और “या शब्दों में ” का लोप किया जाएगा।

4. उक्त नियमों के नियम 25 में उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“ (3) प्रत्येक मतपत्र में प्रतिपण होगा और मतपत्र की क्रमसंख्या प्रतिपण पर मुद्रित की जाएगी”

5. उक्त नियमों के नियम 31 में खंड (ग), (घ) और खंड (ड.) में शब्दों “या रोमन ” और “या शब्दों में ” का लोप किया जाएगा।

6. उक्त नियमों के नियम 32 में शब्दों “या संस्था ” के स्थान पर “ संस्था का क्षेत्रीय कार्यालय, जैसा भी मामला हो” शब्द रखे जाएंगे।

7. उक्त नियमों की अनुसूची 6 के खंड 7 के उपखंड (1) में शब्दों “या संस्था ” के स्थान पर “ संस्था का क्षेत्रीय कार्यालय, जैसा भी मामला हो” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 1/12/2007-आईजीसी/पीआई]

अनुराग अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 534(अ), तारीख 5 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किये गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि.संख्यांक 553(अ) तारीख 23 जुलाई, 2008 और सा.का.नि. सं. 110 (अ), तारीख 25 फरवरी, 2011 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2018

G.S.R. 796(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 29A read with clause (a) of sub-section (2) of section 9 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006, namely:-

1. (1) These rules may be called the Chartered Accountants (Election to the Council) Amendment Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Chartered Accountants (Election to the Council) Rule, 2006 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 16, after sub-rule (4), the following sub-rules shall be inserted, namely:-
“(5) The Council shall appoint a Panel for enforcement of Election Code of Conduct consisting of Returning Officer and two other officers either from the Ministry of Corporate Affairs or from the Election Commission of India or from any other Ministry or Department of the Central Government.
(6) Immediately upon receipt of a complaint either by post or e-mail alleging violation of the Election Code of Conduct, the Returning Officer shall forward a copy of the complaint to the member against whom the complaint has been made asking him to submit his written statement within seven days of the receipt of the said complaint by him.

(7) On receipt of written statement, the Returning Officer shall place the complaint and written statement along with additional documents if any, before the Panel for its consideration.

Provided that if the written statement is not submitted, within seven days, by the member against whom complaint has been made, the Returning Officer shall presume that the member has nothing to state and take further action as per this rule.

(8) On consideration of the complaint and written statement of the member if any, if the Panel is of the view that the member has violated any one or more provisions of the Election Code of Conduct or rule 42, it shall refer the complaint along with its opinion to the Director (Discipline) for further investigation.

(9) The Panel shall have power to regulate its procedure:

Provided that the complaint referred above shall be disposed of by the Panel within fifteen days from the date of its receipt by the Panel.”.

3. In the said rules, in rule, 20 in sub-rule (2), in clause (a) and (b), the words “or Roman” and “or in words” shall be omitted.
4. In the said rules, in rule 25, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
“(3) Each ballot paper shall contain a counterfoil, and the serial number of the ballot paper shall be printed on the counter foil.”
5. In the said rules, in rule 31, in clauses (c) (d) and (e), the words “or Roman” and “or in words” shall be omitted.
6. In the said rules, in rule 32, for the words “of the Institute”, the words “or regional office of the Institute, as the case may be,” shall be substituted.
7. In the said rules, in schedule 6, in clause 7, in sub-clause (1), for the words “of the Institute”, the words “or regional office of the Institute, as the case may be,” shall be substituted.

[F. No. 1/12/2007-IGC/PI]

ANURAG AGARWAL. Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 534(E), dated the 5th September, 2006 and subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 553(E), dated the 23rd July, 2008 and number G.S.R. 110(E), dated the 25th February, 2011.